

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2576]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 9, 2013/कार्तिक 18, 1935

No. 2576]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 9, 2013/KARTIKA 18, 1935

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2013

का. आ. 3416(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार का.आ. 47(अ) दिनांक जनवरी 3, 2013 भारत के राजपत्र दिनांक जनवरी 5, 2013 में प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है।

पृष्ठ संख्या 6 गांव डयोढई, पंक्ति संख्या 3 कॉलम संख्या 5 में "46//15/1/1" के स्थान पर "46//15/2/1" पढ़ा जावे।

[फा. सं. आर-31015/10/2012-ओआर-II]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2013

S.O. 3416(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas published *vide* No. S.O. 47(E), dated 3rd January, 2013 in the Gazette of India dated 5th January, 2013 as under, namely :

In the schedule page no. 6 against village Dodhai, in 3rd line, column No. 5 in place "46//15/1/1" the figure "46//15/2/1" shall be substituted.

[F. No. R-31015/10/2012-OR-II]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

4702 GI/2013

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.